



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 701 राँची, बुधवार,

25 जुलाई, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

29 जून, 2018

संख्या-5/आरोप-1-330/2014-901 (HRMS)-- श्री जामनी कान्त, कार्यपालक दंडाधिकारी, बुंड के विरुद्ध सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं विवरण:-

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	JAMNI KANT (BHR/BAS/1476)	श्री जामनी कान्त, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-467/03, गृह जिला- हजारीबाग) को निलंबित किया जाता है.	29/06/2018

श्री जामनी कान्त, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-467/03, गृह जिला- हजारीबाग), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांके, राँची को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने के आलोक में दर्ज निगरानी

थाना कांड सं०-50/95, दिनांक 4 जुलाई, 1995, Vigilance (Spl.) Case No. 11/1995, CNR-JHR No.1-000004-1995 में विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के न्यायालय द्वारा दिनांक 28 अप्रैल, 2018 को पारित आदेश में u/s 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 के तहत दो साल की सश्रम कारावास एवं पच्चीस हजार रुपये का अर्थ दण्ड दिया गया है ।

2. अतः श्री जामनी कान्त को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(ख) के तहत निलंबित किया जाता है ।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, द०छो० प्रमंडल, राँची रहेगा । जहाँ वे विभागीय परिपत्र सं०-3838, दिनांक 22 मार्च, 2017 के अनुपालन में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार जायसवाल,

सरकार के उप सचिव,

जीपीएफ संख्या:ROH/RVP/1007 .
